

ब्रेन इंटरनेशनल स्कूल

विषय- हिंदी

कक्षा- नवीं

Assignment दिसंबर 2018-19

प्रश्न-1 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए ।

प्राचीन काल से हम यह चिंतन के अनुसार सुनते आए हैं कि जीव पंचभूतों (जल, पृथ्वी, वायु ,आकाश, अग्नि) का सम्मिश्रण है । इनमें से किसी की भी सत्ता डगमगा गई तो इसका हश्र क्या होगा , यह हम सभी जानते हैं । फिर यह अज्ञानता क्यों ? पढ़ने और लिखने के बावजूद भी मनुष्य अज्ञानी बनकर स्वार्थ तक सिमट गया है । वह इन तत्वों के प्रति छेड़छाड़ को गंभीरता से क्यों नहीं ले रहा है ? जहाँ हम कहते जा रहे हैं कि हम भौतिक सुखों में आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ उनके कुत्सित परिणाम का दमन क्यों भूल रहे हैं ? जब तक किसी भी वस्तु, आविष्कार और खोज के गुण और दोषों को नहीं टटोलेंगे तब तक आगे बढ़ना हमारे लिए पीछे हटने के बराबर है । पर्यावरण का ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ें तभी वह हमारे लिए सही अर्थों में आगे बढ़ना है । वैदिक ज्योतिष के प्रवर्तक महर्षि पराशर के अनुसार, “ मनुष्य और उसके जीवन में स्वार्थ की भूमिका होती है किंतु व्यक्तिगत स्वार्थ तभी कल्याणकारी होता है जब वह सर्वार्थ का साधन बन कर उस में विलीन हो जाए । स्वार्थ का सर्वार्थ में विलय होते ही रामराज्य का सपना साकार हो जाएगा । इस पृथ्वी और मानव जाति को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें अपने क्षुद्र स्वार्थ को छोड़कर सर्वार्थ की बाँह थामनी होगी ।”

क) प्राचीन काल से हम क्या सुनते आ रहे हैं ?

ख) मानव पंचतत्वों के प्रति कैसा व्यवहार कर रहा है और लेखक के अनुसार किस तरह आगे बढ़ना उपयुक्त है ?

ग) रामराज्य का सपना कब साकार होगा ?

घ) ‘स्वार्थ’ तथा ‘दमन’ शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाएँ ।

(वाक्य गद्यांश में से नहीं होने चाहिए ।)

प्रश्न-2 निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

- क) जो हाथ खुशबू रचते हैं वे किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते हैं ?
ख) लेखक अपने घर तक पहुँचने के लिए कौन-सी निशानियाँ लगाता है ?
ग) ' नए इलाके में 'कविता में कवि अपने घर को क्यों नहीं ढूँढ पाता ?
घ) महादेव भाई की असमय मृत्यु का क्या कारण था ?
ङ) साहित्य के क्षेत्र में महादेव भाई जी का क्या योगदान था ?

प्रश्न-3 निम्नलिखित शब्दों के वर्ण - विच्छेद करें ।

सुप्रभात , घनिष्ठ , सूर्यास्त

प्रश्न-4 संधि कीजिए ।

जानकी + ईश , सीमा + अंत , नर + इंद्र

प्रश्न-5 संधि - विच्छेद कीजिए ।

नरोत्तम , भाग्योदय , नदीश

प्रश्न-6 दिए गए शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द को छाँट कर लिखें ।

अनुमान निर्माण

प्रश्न-7 निम्नलिखित प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाएँ ।

' ना ' ' आवट '

प्रश्न-8 दिए गए शब्दों में सही स्थान पर अनुस्वार या अनुनासिक लगाइए ।

सुदरता प्रशसा ऊटनी

प्रश्न-9 परीक्षा में कम अंक आने पर पिता और पुत्र के बीच हुए संवाद को 25-30 शब्दों में लिखिए ।

प्रश्न-10 'हमारी नदियाँ और हम' विषय पर 80-100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए ।

